



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1937 (श0)
(सं0 पटना 712) पटना, मंगलवार, 30 जून 2015

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

9 मार्च 2015

सं0 प्र02वि0 1- 64/2012-1961—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-10 में विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित सदस्या को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) पूर्णकालिक सदस्या के पद पर नियुक्त किया जाता है। इन्हें 15000/- रुपया (पन्द्रह हजार) समेकित रूप से मासिक मानदेय प्रतिमाह भुगतेय होगा :-

क्र0सं0	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	पुरुष/महिला सदस्य
01	02	03	04
01	डॉ0 रीता रानी, पति श्री प्रमोद कुमार सिंह, मु0 - बलुवाही, महात्मा गंधी मार्ग, आई0डी0बी0आई0 बैंक के नीचे, पो0-जिला - खगड़ियाँ, पिन - 851204	खगड़ियाँ	महिला सदस्य

2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. संबंधित सदस्या अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ समर्पित करेंगे। जन्म तिथि संबंधी प्रमाण-पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी समर्पित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्त सदस्या से उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के नियम 3 के उप-नियम (4) में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप शपथ पत्र/प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

पंकज कुमार,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 712-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>